



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 माघ 1944 (श10)

(सं0 पटना 133) पटना, मंगलवार, 14 फरवरी, 2023

सं० 3 एम०-63/2013(पार्ट-2) सा०प्र०-3026
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

13 फरवरी, 2023

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची से विभिन्न सेवा/संवर्ग के पदों को विलोपित करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। उक्त संकल्प के प्रावधान के आलोक में संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किया जाता है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(1) के परन्तुक में प्रशासी विभागों/कार्यालयों के अनुरोध पर संकल्प की अनुसूची में पदों को जोड़े जाने की कार्यवाई अलग से किये जाने का भी प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में समय-समय पर संकल्प की अनुसूची में प्रस्तावित पदों को सम्मिलित किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-10681 दिनांक-16.09.2021 की कंडिका-7(ii) द्वारा निम्नांकित निर्णय परिचारित किया गया-

"(ii) संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा सम्यक् समीक्षा के उपरान्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में पूर्व से सम्मिलित विभिन्न विभागों/कार्यालयों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के प्रोन्नति के पदों को उक्त अनुसूची से विलोपित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये ताकि प्रोन्नति के पदों को उक्त संकल्प की अनुसूची से विलोपित करने की कार्यवाई सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से की जा सके।"

3. उपर्युक्त निदेश के आलोक में विभिन्न प्रशासी विभागों से संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में से विभिन्न सेवा/संवर्ग के कतिपय पदों को विलोपित किये जाने हेतु प्रस्ताव/सहमति प्राप्त हुए हैं।

4. उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची में पदों को सम्मिलित करने का प्रावधान है परन्तु अनुसूची में सम्मिलित पदों को विलोपित करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही यह भी

उल्लेखनीय है कि उक्त संकल्प मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त निर्गत किया गया है, इसलिए संकल्प की अनुसूची से पदों का विलोपन मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकता है।

5. प्रशासी विभागों से प्राप्त प्रस्ताव/सहमति पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित पदों को उपर्युक्त संकल्प की अनुसूची से विलोपित किया जाता है—

क्र. सं.	विभाग का नाम	संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की अनुसूची से विलोपित किये जाने वाले पद
1.	लघु जल संसाधन विभाग	कार्यपालक अभियंता
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	मत्स्य निदेशालय के— (i) उप मत्स्य निदेशक (ii) प्रधान लिपिक
3.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	(i) सहायक अभियंता (असैनिक/याँत्रिक) (i) वरीय लेखा लिपिक (ii) कनीय लेखा लिपिक
4.	खान एवं भूतत्व विभाग	(i) सहायक निदेशक (ii) उप निदेशक (iii) विज्ञान पदाधिकारी
5.	ग्रामीण कार्य विभाग	अधीक्षण अभियंता संवर्ग के— (i) संयुक्त सचिव (ii) विशेष कार्य पदाधिकारी
6.	उद्योग विभाग	(i) अर्थ अन्वेषक, (ii) प्रधान लिपिक, (iii) अग्र परियोजना पदाधिकारी
7.	जल संसाधन विभाग	(i) सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी के लिए अधीक्षण अभियंता (ii) कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) (i) मुख्य अभियंता (असैनिक) (ii) अधीक्षण अभियंता (असैनिक) क्षेत्रीय कार्यालयों के— (i) इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-III (ii) प्रारूपक ग्रेड-I
8.	निगरानी विभाग	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के— (i) पुलिस उपाधीक्षक
9.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	(i) अंचल निरीक्षक (ii) प्रखण्डों में कार्य करने वाले बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी
10.	योजना एवं विकास विभाग	बिहार अवर योजना संवर्ग के (i) अवर योजना पदाधिकारी
11.	वाणिज्य-कर विभाग	बिहार वित्त सेवा के— (i) राज्य-कर उपायुक्त (ii) राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (iii) राज्य-कर अपर आयुक्त (iv) राज्य-कर विशेष आयुक्त
12.	स्वास्थ्य विभाग	(i) स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए'
13.	सामान्य प्रशासन विभाग	बिहार सचिवालय सेवा के —(i) उप सचिव

6. उपर्युक्त कंडिका-5 में वर्णित पदों को सम्मिलित किये जाने संबंधी संकल्प/आदेश तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

7. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 133-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>